

तुरंत रिलीज के लिए

BHive ब्रैम्पटन अब खुल गया है और इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी को सशक्त कर रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (21 मई, 2021) – कल, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने ब्रैम्पटन के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) में BHive ब्रैम्पटन (BHive Brampton) की वर्चुअल (आभासी) शुरुआत की मेजबानी की। यह अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग पैड है।

BHive, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन द्वारा प्रायोजित एक पहलकदमी है, जिसका लक्ष्य इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी को सशक्त करना, उनके सफर की गति तेज़ करना और उद्यमियों, अर्थव्यवस्था तथा पूरी कम्युनिटी के लिए सकारात्मक असर पैदा करना है। टोरोंटो बिजनेस डिवेलपमेंट सेंटर (Toronto Business Development Centre) के सहयोग से स्थापित, BHive का उद्देश्य [स्टार्ट-अप वीजा \(Start-up Visa\)](#) के द्वारा, उन विदेशी उद्यमियों को आकर्षित करना है, जो कैनैडा में नए और विकसित होने योग्य कारोबार स्थापित करना चाहते हैं। सफल आवेदकों को उनकी स्थायी रिहायश प्रदान की जाएगी और उनके 6 माह के इनक्यूबेशन प्रोग्राम के दौरान, उन्हें कार्यालय की जगह, नेटवर्किंग अवसरों और कारोबार में सहायता संबंधी सेवाओं सहित, कई संसाधन प्रदान किए जाएंगे। उद्यमी [यहां \(here\)](#) आवेदन कर सकते हैं।

सिटी के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट का लगातार विकास, इसकी [इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी \(Economic Recovery Strategy\)](#) का मुख्य हिस्सा है। यह कोविड-19 (COVID-19) महामारी के प्रभावों से उबरने में सिटी की मदद करेगा। BHive ने ब्रैम्पटन के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में कई उद्यमियों, कारोबार इनक्यूबेशन और एक्सलेरेटर जगहों को जोड़ा है, जिनमें शामिल हैं, ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर (Brampton Entrepreneur Centre), रायरसन द्वारा संचालित इनोवेशन ज़ोन (Ryerson-led Innovation Zone), रिसर्च इनोवेशन कमर्शियलाइज़ेशन (आर.आई.सी.) सेंटर (Research Innovation Commercialization (RIC) Centre), साइबर सिक्योरिटी एक्सलेरेटर (Cyber Security Accelerator), रोजर्स साइबरसिक्योर कैटालिस्ट (Rogers Cybersecure Catalyst) द्वारा संचालित कैटालिस्ट साइबर रेंज (Catalyst Cyber Range) और रायरसन का डी.एम.जेड.। ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड (Brampton Board of Trade) और डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए. (Downtown Brampton BIA) भी, इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनाने में मुख्य साझेदार हैं।

[यहां \(here\)](#) BHive के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। [यहां \(here\)](#) सिटी के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।

हवाले

“ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है और हमने BHive की शुरुआत की है, जिससे हम ऐसा ईकोसिस्टम बनाना जारी रखेंगे, जहां उद्यमी कंपनियों और उत्पादों पर विचार कर पाएं, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को नौकरी पर रख पाएं, पूंजी पैदा कर पाएं और हमारे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट को छोड़े बिना, अपनी कंपनी विकसित कर पाएं। ब्रैम्पटन इनोवेशन में लीडर बनने के सही रास्ते पर अग्रसर है। मैं सफलता की शानदार कहानियां देखने के लिए उत्साहित हूँ, जिनकी शुरुआत, BHive और हमारे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में होगी।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन, इनोवेशन में लीडर बनने के रास्ते पर अग्रसर है और भविष्य के लिए नौकरियां पैदा कर रहा है। हमारे विकासशील इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में BHive का स्वागत करके, हम शुरुआती-उद्यम कम्युनिटी तैयार करने, लोकल प्रतिभाओं को विकसित करने और उद्यमियों को उनके सफर के प्रत्येक पड़ाव पर मदद करने की हमारी क्षमता को मज़बूत कर रहे हैं। हम हमारी कम्युनिटी में नए कारोबारों का स्वागत करने और उन्हें विकसित होते हुए देखने के लिए उत्साहित हैं।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट का लगातार विकास, हमारी इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी का मुख्य हिस्सा है और यह कोविड-19 महामारी के प्रभावों से उबरने में हमारी मदद करेगा। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, अर्थव्यवस्था के उस लचीलेपन में मुख्य भूमिका निभाता है। चूंकि BHive, इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाता है, इसलिए यह अर्थव्यवस्था और पूरी कम्युनिटी के लिए सकारात्मक असर पैदा करेगा।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड कल्चर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन का बढ़ता इनोवेशन ईकोसिस्टम, इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनाने की हमारे स्टाफ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो बेहतर साझेदार प्रदान करता है। BHive की शुरुआत के साथ, प्रत्येक इंडस्ट्री में सहयोग, साझेदारी और इनोवेशन के लिए अधिक अवसर पेश करते हुए, हम टोरोंटो बिजनेस डिवेलपमेंट सेंटर की विशेषज्ञता को हमारे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में शामिल करते हैं।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमें सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के नए शुरु किए गए इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होने पर गर्व है, जो उद्यमी-अनुकूलित ईकोसिस्टम बनाने के लिए, रीजन के उच्च अकादमिक इंस्टीट्यूशन्स और भविष्योन्मुख सोच रखने वाले कम्युनिटी लीडर्स के साथ साझेदारी करता है। BHive अनुभवी, नए आने वाले उद्यमियों को लाना और उन्हें स्थापित तथा विकसित करना चाहता है। इनोवेटिव उद्यमियों में हमारे निवेश, भविष्य के कारोबारों के साथ-साथ, कनेडा में इनोवेशन ईकोसिस्टम की संपूर्ण वृद्धि में भी लाभ प्रदान करेंगे।”

- विक्रम खुराना (Vikram Khurana), सी.ई.ओ. ब्रैम्पटन BHive

"स्वस्थ ईकोसिस्टम के लिए क्रॉस-पोलीनेशन महत्वपूर्ण है और ऐसे लोगों को एक करके, जिनकी भिन्न पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता है, हम न केवल BHive को मजबूत बना रहे हैं, बल्कि इनोवेशन ईकोसिस्टम को भी विकसित कर रहे हैं। नए आने वाले उद्यमियों को सर्वोत्तम प्रोग्राम प्रदान करने में टी.बी.डी.सी. की विशेषज्ञता के क्रम में, हम इनोवेशन के साथ बेहतर भविष्य बनाने के लिए उस साझे अनुभव को लाने और BHive की सहायता करने के लिए उत्साहित हैं, जो रीजन और पूरे कैंनेडा में बड़े योगदान देता है।"

- सोबी रघुनाथन (Sobi Ragunathan), बोर्ड मेम्बर, टोरोंटो बिजनेस डिवेलपमेंट सेंटर; सीनियर कंफ्लाइंस पार्टनर, 4S कंसल्टिंग सर्विसिज इंक.

-30-

कैंनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca